



RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

रेलवे भर्ती बोर्ड

RRB ALP & TECHNICIANS 2018

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Roll No: | |
| Participants Name: | |
| Test Center Name: | ION Digital Zone Ganga Nagar Meerut |
| Test Date: | 09/08/2018 |
| Test Time: | 1:00 PM - 2:00 PM |
| Subject: | ALP Technicians |

- Options shown in green color with a tick icon are correct
- Chosen option on top right of the question indicates the option selected by the candidate

Q.1 नीचे दी गई भिन्नों में से किस में $\frac{5}{8}$ जोड़ने पर 1 बन जाता है?

Which of the fractions given below, when added to $\frac{5}{8}$, gives 1?

- Ans
- 1. $\frac{6}{24}$
 - 2. $\frac{5}{2}$
 - 3. $\frac{6}{16}$
 - 4. $\frac{6}{3}$


Question ID : 9864492962

Status : Answered


Chosen Option : 3

Q.2 यदि प्रश्न छवि (Problem figure) के दाईं तरफ दर्पण रखा है तो छवि की सही दर्पण छवि चुनें।

Problem Figure




Answer Figures




Choose the correct mirror image of the problem figure if the mirror is placed to the right of the figure.

Problem Figure



Answer Figures



Question ID : 9864493856

Status : Answered

Chosen Option : 3

- Ans 1. A
 2. D
 3. C
 4. B

Q.3 तत्व A, B और C डॉबरेनीर ले ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि A का परमाणु द्रव्यमान 7 और C का 39 है, तो B का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ?

Elements A, B and C occur as Dobereiner's triads. If the atomic mass of A is 7 and that of C is 39, what will be the atomic mass of B?

Question ID :9864493394

Status :Not Answered

Chosen Option :--

- Ans 1. 23
 2. 12
 3. 20
 4. 40

Q.4 एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाये जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8 : 11 है, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाये गये हैं?

There are saplings of 361 Mango tree and Neem tree in a garden. The ratio of the number of Mango tree to that of Neem tree saplings is 8 : 11, then how many Neem tree saplings are in the garden?

Question ID :9864492545

Status :Answered

Chosen Option :1

- Ans 1. 209
 2. 152
 3. 171
 4. 57

Q.5 किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज ₹ 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी?

A sum of money was invested at the rate of 7.5% simple interest per annum for 4 years. If the investment was for 5 years, the interest earned would have been ₹ 375 more. What was the initial sum invested?

Question ID :9864492847

Status :Not Answered

Chosen Option :--

- Ans 1. ₹ 4,500
 2. ₹ 5,000
 3. ₹ 3,750
 4. ₹ 4,750

Q.6 4.0 किलोग्राम वज़नी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर, यह 5 मीटर प्रति सैकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य _____ होगा।

A body of 4.0 kg is lying at rest. Under the action of a constant force, it gains a speed of 5 m/s. The work done by the force will be _____.

Question ID :9864493302

Status :Answered

Chosen Option :1

- Ans 1. 20 जूल
 2. 20 J
 3. 50 जूल
 4. 50 J
 5. 30 जूल
 6. 30 J
 7. 40 जूल
 8. 40 J

Q.7

दो पाइप, एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी $\frac{1}{12}$ भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

Two pipes, when working one at a time, can fill a cistern in 3 hours and 4 hours, respectively while a third pipe can drain the cistern empty in 8 hours. All the three pipes were opened together when the cistern was $\frac{1}{12}$ full. How long did it take for the cistern to be completely full?

Ans


- ✓ 1. 2 घंटे
2 hours
- ✗ 2. 1 घंटा 45 मिनट
1 hour 45 minutes
- ✗ 3. 2 घंटे 11 मिनट
2 hour 11 minutes
- ✗ 4. 2 घंटे 10 मिनट
2 hour 10 minutes

Question ID :9864492952


Status :Answered

Chosen Option :3

Q.8 नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें।



The below figure is embedded in one of the answer figures. Choose the correct figure containing the below figure.



- ✗ 1. D
- ✓ 2. B
- ✗ 3. C
- ✗ 4. A

Question ID :9864493681

Status :Answered

Chosen Option :2

Q.9 ओडिशा को अधिकतर _____ के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है।
Odisha often faces natural disasters due to _____.

Ans

- ✗ 1. भूकंप
earthquakes
- ✓ 2. चक्रवात
cyclones
- ✗ 3. वर्षा
rainfall

Question ID :9864492096

Status :Answered

Chosen Option :2

4. बूदा बांदी
drizzle

Q.10 निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी ?
Who among the following laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination?

Question ID :9864493207

Status :Answered

Chosen Option :1

Ans

1. अर्नेस्ट रदरफोर्ड
Ernest Rutherford

2. डेमोक्रीटस
Democritus

3. जोसेफ एल .प्रोउस्ट
Joseph L. Proust

4. एंटोयन एल .लेवोयज़ीयर
Antoine L. Lavoisier

Q.11 यदि $3x^2 + ax + 4$, $x - 5$ द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो a का मान कितना है?
If $3x^2 + ax + 4$ is perfectly divisible by $x - 5$, then the value of a is:

Question ID :9864492957

Status :Answered

Chosen Option :3

Ans

1. - 12

2. - 5

3. - 15.8


4. - 15.6

Q.12 दी गई छवि नीचे दिए गए चार विकल्पों में किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन चार विकल्पों में से किसमें छुपी हुई है।


Question ID :9864493823

Status :Answered

Chosen Option :2



The following figure is embedded in one of the four answer figures. Which figure contains the problem figure?



Ans

1. A

2. B

3. D

4. C

Q.13

Question ID :9864492799

Status :Answered

Chosen Option :1

निम्न हल करें

$$-\frac{1}{4}\{-45 - (-96) \div (-32)\} = ?$$

Solve the following:

$$-\frac{1}{4}\{-45 - (-96) \div (-32)\} = ?$$

- Ans 1. 12
 2. 10.5
 3. -12
 4. -10.5

Q.14 यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि (आपका परावर्तन) आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार है:

If you look into a mirror and find that the image (your reflexion) is smaller than you, then the type of the mirror is:

Question ID :9864493364

Status :Answered

Chosen Option :4

- Ans 1. समतल-उत्तल दर्पण
plano-concave mirror
 2. अवतल दर्पण
concave mirror
 3. समतल दर्पण
plane mirror
 4. उत्तल दर्पण
convex mirror

Q.15 किसी कंप्यूटर गेम में, एक बिल्डर दस घंटों में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक चौदह घंटों में पूरी तरह से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों, बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए। लेकिन 7घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटों में (लगा?)

In a computer game, a builder can build a wall in ten hours while a destroyer can demolish such a wall completely in fourteen hours. Both, the builder and the destroyer were initially set to work together on level ground. But after 7 hours the destroyer was taken out. What was the total time (in hours) taken to build the wall?

Question ID :9864492869

Status :Answered

Chosen Option :1

- Ans 1. 15
 2. 17
 3. 24
 4. 35

Q.16 एक वृत्त पर एक-दूसरे पर 75° के कोण पर झुकी हुई स्पर्शरेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्शरेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाये, जिनके बीच का कोण _____ है।

To draw a pair of tangents to a circle which are inclined to each other at an angle of 75° , it is required to draw tangents at the end points of those two radii of the circle, the angle between whom is

Question ID :9864492518

Status :Not Answered

Chosen Option :--

- Ans 1. 65°
 2. 75°
 3. 95°

✓ 4. 105°

Q.17 यदि $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 3$ हो तो $\operatorname{cosec}^4\theta - \operatorname{cosec}^2\theta = ?$

If $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 3$, then $\operatorname{cosec}^4\theta - \operatorname{cosec}^2\theta = ?$

- Ans
- ✗ 1. 2
 - ✗ 2. 0
 - ✗ 3. 1
 - ✓ 4. 3

Question ID :9864492897

Status :Answered

Chosen Option :4

Q.18 'मध्य प्रदेश' का सम्बन्ध 'हीरे' से ठीक वैसा ही है, जैसा कि 'कर्नाटक' का सम्बन्ध _____ से है।

'Madhya Pradesh' is related to 'Diamond' in the same way as 'Karnataka' is related to _____.

- Ans
- ✗ 1. चांदी
Silver
 - ✗ 2. प्लैटिनम
Platinum
 - ✓ 3. सोना
Gold
 - ✗ 4. ताम्बा
Copper

Question ID :9864494114

Status :Answered


Chosen Option :4

Q.19

Question ID :9864494000

Status :Not Answered

Chosen Option :--




jan- जनवरी feb- फरवरी mar- मार्च apr- अप्रैल
may- मई jun- जून

दिए गए आंकड़े मोटर-साइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरूआती 6 महीनों में शहर X में हुए पंजीकरणों की संख्या (हज़ारों में) बताते हैं।

सूचना: चार्ट में पहली संख्या मोटर-साइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है।

दिए गए आंकड़ों के आधार पर, जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान, मोटर-साइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या _____ से बढ़ी।



The given data shows the registration of bikes and total vehicles (in thousands) for 6 months in 2017 in City X.

Note: In the chart, the first number represents bikes and the second number represents total vehicles.

Based on the given data, from January to April 2017, the increase in the registration of vehicles other than bikes is _____.

- Ans 1. 8000
 2. 9050
 3. 8500
 4. 9000

Q.20 यदि $a + b + c = 0$, तो $(a^3 + b^3 + c^3)^2 = ?$

If $a + b + c = 0$, then $(a^3 + b^3 + c^3)^2 =$

- Ans 1. $3a^2b^2c^2$
 2. $9a^2b^2c^2$
 3. $9abc$
 4. $27abc$

Question ID : 9864492584

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.21

Question ID : 9864493694

Status : Answered

Chosen Option : 1

तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सी अनुमान निहित है/ हैं।

तर्क:

सार्वजनिक धूमपान कानूनन अपराध है।

अनुमान:

1. धूमपान करना धूमपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
2. धूमपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

Consider the argument and decide which of the given assumptions is/are implicit.

Argument:

Public smoking is an offence under the law.

Assumption:

1. Smoking is injurious to the health of the person who smoke.
2. Smoke is injurious even to others health in the public places.

Ans

- 1 और 2 दोनों निहित हैं
✗ 1. Both 1 and 2 are implicit
- न तो 1 और न ही 2 निहित है
✗ 2. Neither 1 nor 2 is implicit
- केवल अनुमान 2 निहित है
✓ 3. Only assumption 2 is implicit
- केवल अनुमान 1 निहित है
✗ 4. Only assumption 1 is implicit

Q.22 उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा:

ACT, EGG, INK, _____

Choose the correct alternative which will complete the series.

ACT, EGG, INK, _____

- Ans
- ✗ 1. BYE
✓ 2. OLD
✗ 3. FUN
✗ 4. DIP

Question ID :9864493671

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.23 किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड अम्बेसडर बनाया है?

Which state government has made yoga guru Ramdev Baba as the brand ambassador of Yoga and Ayurveda?

- Ans
- ✓ 1. हरियाणा
Haryana
- ✗ 2. उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh
- ✗ 3. हिमाचल प्रदेश
Himachal Pradesh

Question ID :9864492415

Status :Answered

Chosen Option :1

4. राजस्थान
Rajasthan

Q.24 नीचे दिये गए कथन को सत्य मानते हुए यह जात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है।

Question ID :9864494093

Status :Answered

Chosen Option :2

कथन:

लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है। इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते।

निष्कर्ष:

1. सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है।
2. करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके।

Consider the given statements as true and decide which of the given conclusions can definitely be drawn from the given statements.

Statements:

People think that paying tax to the government is a burden and waste. Hence, they avoid paying tax or don't pay tax promptly.

Conclusions:

1. Government should create awareness among the people that paying tax helps to build nation.
2. Tax should be increased so that more money is collected.

Ans निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं।

1.

Both 1 and 2 follow.

2.

सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।

Only conclusion 1 follows.

3.

ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं।

Neither 1 nor 2 follows.

4.

सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।

Only conclusion 2 follows.

Q.25 खाद्य पदार्थों में दुर्गन्ध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का _____ है।

The main cause of rancidity in foods is the _____ of fats and oils.

Question ID :9864493629

Status :Answered

Chosen Option :1

Ans हाइड्रोलिसिस

1.

hydrolysis

2.

ऑक्सीकरण

oxidation

3.

शोधन

clarification

4. अवकरण
reduction

Q.26 कौन सा उत्तर चित्र (Answer figure) दिए गए प्रश्न चित्र (problem figure) का सही जल प्रतिबिंब है?

Question ID :9864493962


Status :Answered

Chosen Option :1

Problem Figure



Answer Figures




Which of the Answer Figures is the correct water image for the given Problem figure?

Problem Figure



Answer Figures



- Ans
- 1. C
 - 2. A
 - 3. B
 - 4. D

Q.27 श्री X, 'A' बिंदू से यात्रा आरंभ करता है पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है और B बिंदू पर पहुंच जाता है। A और B बिंदुओं के मध्य की लघुतम दूरी कितनी है?

Question ID :9864493662

Status :Answered

Chosen Option :4

Mr. X starts from point 'A' travels 80 km towards west, takes a left turn, travels 50 km and reaches point 'B'. What is the shortest distance between points 'A' and 'B'?

- Ans
- 1. $10\sqrt{93}$
 - 2. $10\sqrt{39}$
 - 3. $10\sqrt{98}$
 - 4. $10\sqrt{89}$

Q.28 एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 cm और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 cm है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊँचाईयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना है?

Question ID :9864492637

Status :Answered

Chosen Option :4

The mean height of 25 boys in a class is 150cm, and the mean height of 35 girls in the same class is 145 cm. The combined mean height of 60 students in the class is _____ (approximately)

- Ans
- 1. 143
 - 2. 145
 - 3. 146
 - 4. 147

Q.29 निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है?
Which of the following serves as a nutritive tissue for the growing embryo?

Question ID :9864493337

Status :Answered

Chosen Option :4

- Ans
- 1. बीजांड
Ovule
 - 2. अंडाशय
Ovary
 - 3. एण्डोस्पर्म
Endosperm
 - 4. युग्मनज (Zygote)
Zygote

Q.30 दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें।

Question ID :9864493804

Status :Answered

Chosen Option :4

बढ़ई : हथौड़ी

Choose the correct analogous word pair from the given alternatives.

Carpenter : Hammer

- Ans
- 1. क्रेन : बिल्डर
Crane : Builder
 - 2. कंप्यूटर : लेखक
Computer : Writer
 - 3. नलसाज : पाना
Plumber : Wrench
 - 4. कुल्हाड़ी : लकड़हारा
Axe : Logger

Q.31 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे?

Question ID :9864492209

Status :Answered

Chosen Option :3

The 2016 Olympics was held in which city?

- Ans
- 1. पेरिस
Paris
 - 2. मेक्सिको सिटी
Mexico City
 - 3. रियो डी जिनेरियो
Rio de Janeiro
 - 4. लंदन
London

Q.32

Question ID :9864492599

Status :Answered

निम्न हल करें

Chosen Option :1

$$27 - [38 - \{46 - (15 - 13 - 2)\}]$$

Solve the following:

$$27 - [38 - \{46 - (15 - 13 - 2)\}]$$

- Ans 1. 35
 2. 31
 3. 29
 4. 30

Q.33 'कठोपनिषद्' में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है?
The 'Kathopanishad' captures the conversation between a young boy named Nachiketas and a god. Which of the following gods is talking to Nachiketas?

Question ID :9864492127

Status :Answered

Chosen Option :1

- Ans 1. भगवान यम
Lord Yama
 2. भगवान शिव
Lord Shiva
 3. भगवान इंद्र
Lord Indra
 4. भगवान कार्तिकेय
Lord Karthikeya

Q.34 20.0 cm की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी:
The focal length of a concave mirror with a radius of curvature of 20.0 cm is:

Question ID :9864493063

Status :Answered

Chosen Option :2


- Ans 1. 15 cm
 2. 20 cm
 3. 5 cm
 4. 10 cm

Q.35 दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार, यथार्थतः दो भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या _____ है।

Question ID :9864494085


Status :Answered

Chosen Option :1



English - अंग्रेजी Hindi - हिंदी Tamil - तमिल

The given Venn diagram represents the students who can speak different languages. According to it, the total number of students who can speak exactly two languages is _____.



- Ans 1. L + M + O
 2. N + L
 3. L + O
 4. L + M + O + N

Q.36 युद्ध के मैदान में हमेशा _____ रहते हैं।

A battlefield always has:

- Ans 1. तीर
 Arrows
 2. हाथी
 Elephants
 3. रथ
 Chariots
 4. सैनिक
 Soldiers

Question ID :9864493824

Status :Answered

Chosen Option :4

Q.37 किसी घनाभ की तीन सतहों के क्षेत्रफल 20 m^2 , 32 m^2 और 40 m^2 हैं। घनाभ का आयतन कितना है?

The surface areas of three faces of a cuboid sharing a vertex are 20 m^2 , 32 m^2 and 40 m^2 . What is the volume of the cuboid?

- Ans 1. 92 m^3
 92 m^3
 2. $\sqrt{3024}\text{ m}^3$
 $\sqrt{3024}\text{ m}^3$
 3. 160 m^3
 160 m^3
 4. 184 m^3
 184 m^3

Question ID :9864492854

Status :Not Answered

Chosen Option :--

Q.38 5 m/s की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज उर्जा कितनी होगी?

An object with a mass of 22 kg moving with a velocity of 5 m/s possesses a kinetic energy of:

- Ans 1. 275 J
 2. 110 J
 3. 1100 J
 4. 2750 J

Question ID :9864493480

Status :Answered

Chosen Option :1

Q.39 निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है?

Which of the following is a reducible fraction?

- Ans 1. $\frac{91}{15}$
 2. $\frac{79}{26}$

Question ID :9864492442

Status :Answered

Chosen Option :3

✓ 3. $\frac{105}{112}$

✗ 4. $\frac{41}{17}$

Q.40 दूध-पानी के एक मिश्रण का $\frac{2}{3}$ भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जायेगा?

$\frac{2}{3}$ of a milk-water mixture was milk. There was 21 litres of the mixture. If 4 litres of water is added to it, the percentage of milk in the new mixture will be:

Ans ✗ 1. 44

✓ 2. 56

✗ 3. 14

✗ 4. 11


Question ID :9864492786

Status :Answered


Chosen Option :1

Q.41 प्रॉब्लम फिगर (Problem figure) की सही जल छवि को चुनें।


Problem Figure




Answer Figures




A



B




C




D

Choose the correct water image of the problem figure.


Problem Figure




Answer Figures




A



B



C



D

Ans ✗ 1. D

✗ 2. B

✗ 3. A

✓ 4. C

Question ID :9864493866

Status :Answered

Chosen Option :4

Q.42 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है?

The Dadasaheb Phalke Award is awarded for significant public achievement in which field?

Ans ✓ 1. फिल्म

Films

✗ 2. पत्रकारिता

Journalism

Question ID :9864492334

Status :Answered

Chosen Option :1

3. साहित्य
Literature

4. खेल
Sports

Q.43 $-261+(-380)-(-521)+821-(-121)$ का मान है:

The value of $-261+(-380)-(-521)+821-(-121)$ is:

Ans 1. 800

2. 825

3. 822

4. 833

Question ID :9864493884

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.44 एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है?

The resistance of a conductor is inversely proportional to its:

Ans 1. तापमान

2. temperature

3. प्रतिरोधकता

4. resistivity

5. अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल

6. area of cross section

7. लंबाई

8. length

Question ID :9864493546

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.45 थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ?

Which of the following is essential for the synthesis of thyroxin?

Ans 1. पोटॅशियम

2. Potassium

3. सोडियम

4. Sodium

5. कैल्शियम

6. Calcium

7. आयोडीन

8. Iodine

Question ID :9864493316

Status :Answered

Chosen Option :4

Q.46 एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है :

The girth of the stem or root in plants increases due to:

Ans 1. लेटरल मेरिस्टेम

2. Lateral meristem

Question ID :9864493295

Status :Answered

Chosen Option :2

- 2. इन्टरकेलेरी मेरिस्टेम
Intercalary meristem
- 3. एक्सट्रा मेरिस्टेम
Extra meristem
- 4. एपिकल मेरिस्टेम
Apical meristem

Q.47 दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएँ कि इसका का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है/हैं।

P, Q, R, S और T में सबसे कम वज़न किसका है?

कथन:

1. Q का वज़न P और S से कम है तथा S का वज़न T से ज्यादा है
2. R का वज़न Q से अधिक है लेकिन T से कम है

Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

Who among P, Q, R, S and T is lightest in weight?

Statements:

1. $Q \text{ weight} < P \text{ and } S \text{ also } S \text{ weight} > T$
2. $R \text{ weight} > Q \text{ but } < T$

Ans 1.

केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है

Statement 2 alone is sufficient while statement 1 alone is insufficient

2. कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं

Both statement 1 and 2 are sufficient

3. ना कथन 1 और ना कथन 2 पर्याप्त है

Neither statement 1 nor 2 is sufficient

4.

केवल कथन 1 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 अपर्याप्त है

Statement 1 alone is sufficient while statement 2 alone is insufficient

Question ID :9864493840

Status :Answered

Chosen Option :1

Q.48 निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसीन तेल में संग्रहित होती है ?

Which of the following metals is stored in kerosene oil?

- Ans 1. प्लैटिनम
Platinum
2. तांबा
Copper
3. सोडियम
Sodium
4. सोना
Gold

Question ID :9864493251

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.49

नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10, अनुभाग 'A' और 'B' की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है।

अनुभाग 'A' में छात्रों का प्रतिशत (एक दशमलव पूर्णांक तक) कितना है?

| परिणाम | अनुभाग A | अनुभाग B |
|--|----------|----------|
| दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या | 28 | 23 |
| मध्यावधि परीक्षा में फेल लेकिन सत्रांत परीक्षा में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या | 14 | 12 |
| मध्यावधि परीक्षा में पास लेकिन सत्रांत परीक्षा में फेल विद्यार्थियों की कुल संख्या | 6 | 17 |
| दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या | 64 | 55 |

The following table gives the details of the number of students in Class 10 section A and B who had taken mid-term and final exam.

The percentage of students in section A is _____ (round to one decimal).

| Result | Sec A | Sec B |
|--|-------|-------|
| Total number of students who failed in both exams | 28 | 23 |
| Total number of students who failed in mid-term but passed in finals | 14 | 12 |
| Total number of students who passed in mid-term but failed in finals | 6 | 17 |
| Total number of students who passed in both the exams | 64 | 55 |

- Ans
- 1. 51
 - 2. 51.1
 - 3. 51.3
 - 4. 51.2

Question ID :9864493819

Status :Not Answered

Chosen Option :--

Q.50 कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता 'महाराजा' थे?

Which Indian Chief Minister's father was a 'Maharaja'?

- Ans
- 1. चंद्रबाबू नायडू
Chandrababu Naidu
 - 2. देवेंद्र फडनवीस
Devendra Fadnavis
 - 3. के. चंद्रशेखर राव
K Chandrasekhar Rao

Question ID :9864492287

Status :Answered

Chosen Option :3

✓ 4. अमरिंदर सिंह
Amarinder Singh

Q.51 किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति 'दुखम सुखम' के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया?

Which eminent Hindi writer was chosen for the Vyas Samman 2017 for her work 'Dukham Sukham'?

Question ID :9864492393

Status :Answered

Chosen Option :2

Ans

- ✗ 1. नमिता गोखले
Namita Gokhale
- ✗ 2. मीना कंडासामी
Meena Kandasamy
- ✗ 3. झुंपा लाहिरी
Jhumpa Lahiri
- ✓ 4. ममता कालिया
Mamta Kalia

Q.52 किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 cm और 4 cm लम्बी हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा?

The two sides holding the right-angle in a right-angled triangle are 3 cm and 4 cm long. The area of its circumcircle will be:

Question ID :9864492754

Status :Answered

Chosen Option :1

Ans

- ✗ 1. $5\pi \text{ cm}^2$
- ✗ 2. $7\pi \text{ cm}^2$
- ✗ 3. $6.75\pi \text{ cm}^2$
- ✓ 4. $6.25\pi \text{ cm}^2$

Q.53 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है?

Who won the 2017 Hridaynath Mangeshkar Award?

Question ID :9864492221

Status :Answered

Chosen Option :4

Ans

- ✓ 1. जावेद अख्तर
Javed Akhtar
- ✗ 2. आशा भोसले
Asha Bhosle
- ✗ 3. शबाना आजमी
Shabana Azmi
- ✗ 4. अनुपम खेर
Anupam Kher

Q.54

Question ID :9864493328

सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए, आपको निम्न में से क्या करना होगा:

To convert temperature from Celsius to Kelvin scale, you must:

Status :Answered

Chosen Option :2

- Ans
- 1. दिए गए तापमान को 273 से गुना करें
multiply the given temperature by 273
 - 2. दिए गए तापमान में 273 जोड़े
add 273 to the given temperature
 - 3. दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें
divide the given temperature by 273
 - 4. दिए गए तापमान में से 273 घटाएं
subtract 273 from the given temperature

Q.55 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 m/s के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ($g=10\text{ m/s}^2$)
A body of mass 2 kg is thrown upward with initial velocity of 20 m/s. After 2 seconds, its kinetic energy will be: ($g=10\text{ m/s}^2$)


Question ID :9864493142

Status :Answered

Chosen Option :3


- Ans
- 1. 100 J
 - 2. 0 J
 - 3. 400 J
 - 4. 200 J

Q.56 दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र को चुनें।



1 2 3 4 5

Select the odd figure out of the following figure series.



1 2 3 4 5

Question ID :9864494284

Status :Answered

Chosen Option :1

- Ans
- 1. 4
 - 2. 1
 - 3. 2
 - 4. 5

Q.57 अगर घड़ी पर नंबर 1 को 'M' द्वारा, नंबर 2 को 'N' द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तो जब समय 21:00 होता है, घंटे की सुई _____ अक्षर पर होगी।

If the number 1 on the clock is replaced by the letter 'M', the number 2 is replaced by 'N' and so on, then when the time is 21:00 p.m. the hour hand will be at _____ letter.

Question ID :9864493880

Status :Not Answered

Chosen Option :--

- Ans
- 1. S

2. T

3. U

4. V

Q.58 दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए।

Question ID :9864493721

Status :Answered

Chosen Option :1

BGL, DIN, _____, HMR

Find the missing term in the letter series.

BGL, DIN, _____, HMR

Ans 1. FKP

2. FPK

3. EJO

4. GLQ

Q.59 शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। परन्तु मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और एक तिहाई कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करता?

Question ID :9864492809

Status :Not Answered

Chosen Option :-

Sharan and Mayukh, working together, can complete a task in 18 days. However, Mayukh works alone and leaves after completing one-third of the task. Then, Sharan takes over and completes the remaining work by himself. As a result, the duo could complete the task in 40 days. How many days would Sharan alone have taken to do the job if Mayukh had worked faster than Sharan?

Ans 1. 45

2. 30

3. 72

4. 24

Q.60 निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है

Question ID :9864493800

Status :Answered

Chosen Option :1

कथन:

राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। X सुंदर है।

निष्कर्ष:

1. X राजनेता से शादी करेगी

2. X राजनेता से शादी नहीं करेगी

Decide which of the conclusions logically follow(s) from the information given in the statement.

Statements:

Politicians marry only beautiful girls. X is beautiful.

Conclusions:

1. X will marry a politician

2. X won't marry a politician

Ans 1. केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है

2. केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है

Only conclusion 1 follows

Only conclusion 2 follows

3. Both conclusions follow

Both conclusions follow

✓ 3. या तो 1 या 2 अनुसरण करता है

Either 1 or 2 follows

✗ 4. 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं

Both 1 and 2 follow

Q.61 मेरी वर्तमान आयु का तीन - पांचवां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का पांचवां - छठा हिस्सा। मेरी दस साल पहले आयु, उनकी आज से चार साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु वर्ष है।

Three-fifths of my current age is the same as five-sixths of that of one of my cousins'. My age ten years ago will be his age four years hence. My current age is _____ years.

Ans ✗ 1. 55

✗ 2. 45

✗ 3. 60

✓ 4. 50

Question ID :9864492973

Status :Not Answered

Chosen Option :-

Q.62 'भोजन' वैसे ही 'फ्रिज' से संबंधित है, जैसे 'कपड़े' _____ से संबंधित हैं।

'Food' is related to 'Refrigerator' in the same way as 'Clothes' is related to _____.

Ans ✗ 1. गेराज

Garage

✓ 2. अलमारी

Closet

✗ 3. तह

Fold

✗ 4. सामग्री

Material

Question ID :9864494164

Status :Answered

Chosen Option :2

Q.63 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है?

Which of the following never occurs singly in nature?

Ans ✗ 1. जड़त्व

Inertia

✓ 2. बल

Force

✗ 3. संवेग

Momentum

✗ 4. वेग

Velocity

Question ID :9864493519

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.64 नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है?

Which of the numbers given below is NOT rational?

Ans ✗ 1. $\sqrt{64}$

Question ID :9864492904

Status :Answered

Chosen Option :4

- 2. $\sqrt[3]{64}$
- 3. $\sqrt[3]{8}$
- 4. $\sqrt{8}$

Q.65 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती?

Which of the following gases is not generated in a biogas plant?

- Ans
- 1. CO
 - 2. H₂S
 - 3. CH₄
 - 4. CO₂

Question ID :9864493605

Status :Answered

Chosen Option :2

Q.66 भारतीय पैरालंपिक हाई जम्पर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

Name the Indian paralympic high jumper who won gold at the Rio Paralympics. He was awarded the Padma Shri in 2017.

- Ans
- 1. नरेंद्र रणबीर
Narender Ranbir
 - 2. वरुण भाटी
Varun Bhati
 - 3. मरियप्पन थांगावेलु
Mariyappan Thangavelu
 - 4. देवेंद्र झाझड़िया
Devendra Jhajharia

Question ID :9864492340

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.67 जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था?

Which was the first country to introduce GST in its system?

- Ans
- 1. कैनैडा
Canada
 - 2. फ्रांस
France
 - 3. ऑस्ट्रेलिया
Australia
 - 4. जर्मनी
Germany

Question ID :9864492218

Status :Not Answered

Chosen Option :--

Q.68 क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है:

Chlorine gas is used in the manufacture of:

- Ans
- 1. बेकिंग पाउडर
Baking powder
 - 2. बेकिंग सोडा
Baking soda

Question ID :9864493590

Status :Answered

Chosen Option :4

✓ 3. Bleaching powder

✗ 4. Washing soda

Q.69 यदि क्रिप्टान की परमाणु संख्या 36 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा :

If the atomic number of Krypton is 36, then its electronic configuration is:

- Ans
- ✗ 1. 2,18,16
 - ✓ 2. 2,8,18,8
 - ✗ 3. 2.18,8,8
 - ✗ 4. 2,8,20,6

Question ID :9864493293

Status :Answered

Chosen Option :4

Q.70 तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया कौन सा अनुमान निहित है।

तर्क:

बस यात्रा कंपनी BEST ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

अनुमान:

1. यात्री BEST बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं।
2. किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है।

Consider the argument and decide which of the given assumptions is/are implicit.

Argument:

The BEST bus travels company has decided to increase its fare by 10%.

Assumptions:

1. Passengers may opt for other buses costing less than the BEST bus travels company.
2. The demand for the buses by passengers may remain unchanged even after the fare hike.

- Ans
- ✓ 1. 1 और 2 दोनों निहित हैं
Both 1 and 2 are implicit
 - ✗ 2. केवल अनुमान 2 निहित है
Only assumption 2 is implicit
 - ✗ 3. केवल अनुमान 1 निहित है
Only assumption 1 is implicit
 - ✗ 4. न तो 1 और न ही 2 निहित है
Neither 1 nor 2 is implicit

Question ID :9864493720

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.71 ₹ 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज ₹ 18 है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है?

₹ 750 invested for 3 months gave an interest of ₹ 18. What was the simple rate of interest per annum?


- Ans
- ✗ 1. 2.4%
 - ✓ 2. 9.6%
 - ✗ 3. 7.2%
 - ✗ 4. 12%

Question ID :9864492827


Status :Answered

Chosen Option :2

Q.72 दिए गए क्रम में, भिन्न चित्र का चयन करें।



Select the odd figure out of the given series.




- Ans 1. (c)
 2. (a)
 3. (d)
 4. (b)

Question ID :9864494161


Status :Answered

Chosen Option :1

Q.73 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



How many triangles are present in the following figure?



- Ans 1. 12
 2. 15
 3. 14
 4. 13

Question ID :9864493860

Status :Answered

Chosen Option :3

Q.74 धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं-

Metals reacts with acids to give:

- Ans 1. लवण और क्लोरीन
 A salt and Chlorine

Question ID :9864493272

Status :Answered

Chosen Option :2

2. लवण और क्षार
A salt and base
3. लवण और हाइड्रोजन
A salt and Hydrogen
4. लवण और पानी
A salt and water

Q.75 यदि _____ शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी।
If _____ is involved, even greater diversity will be generated.

Ans

1. लैंगिक प्रजनन
sexual reproduction
2. बाइनरी विखंडन
binary fission
3. वानस्पतिक जनन
vegetative propagation
4. अलैंगिक प्रजनन
asexual reproduction

Question ID :9864493638

Status :Answered

Chosen Option :3